


# कोई भी पानी में चलने वाला वाहन चलाते समय सुरक्षित रहें

हमेशा बाहर जाने से पहले याद रखें:



**सही सुरक्षा उपकरण ले जाएं**  
जो आवश्यक है, वह ले जाएं, इसका ठीक से काम करना सुनिश्चित करें और इसे आसानी से सुलभ रखें।



**किसी अन्य व्यक्ति को अपनी योजनाएं बताएं**  
किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं और कब वापस आने की उम्मीद करते/ती हैं।



**अपने पानी में चलने वाला वाहन और जगह की आवश्यकताओं की जांच करें**  
जलमार्ग और पानी में चलने वाला वाहन के प्रकार के आधार पर आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं।



**बैकअप संचार साथ रखें**  
यदि आपके मोबाइल फोन का उपयोग न किया जा सके, तो एक **EPIRB** या कोई दूसरा विकल्प अपने साथ रखें।



**लाइफजैकेट पहनें**  
लाइफजैकेट जीवन बचाते हैं - सुनिश्चित करें कि यह अच्छी तरह फिट हो, अच्छी स्थिति में हो और आपकी गतिविधि के लिए सही प्रकार का हो।



**DECKEE ऐप में अपनी यात्रा को लॉग करें**  
आपातस्थिति में दूसरों के साथ अपना स्थान साझा करने के लिए आप यह अतिरिक्त कदम उठा सकते/ती हैं।



**अपनी यात्रा की अच्छी योजना बनाएं**  
हरेक यात्रा से पहले और गर्मियों के बोटिंग सीज़न की शुरुआत में स्किपर्स कार्यदर्शिका में दी गई **जाँचसूचियों** का उपयोग करें। इसकी एक प्रति पाने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

अपनी भाषा में समुद्री सुरक्षा के बारे में और अधिक सुझावों के लिए [safetransport.vic.gov.au/languages](https://safetransport.vic.gov.au/languages) पर जाएं।

